



संकेटी ऑफ स्टेट

प्रिय मतदाता:

वोट के लिए पंजीकरण कराकर आपने कैलिफोर्निया के भविष्य का निर्णय करने में एक सक्रिय भूमिका निभाने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। अब फैसला लेने में आपकी मदद करने के लिए, मेरे कार्यालय ने यह आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका—तैयार की है जो इस बारे में जानने के लिए उपयोगी साधनों में से एक साधन है कि आपके मतपत्र में क्या होगा और यह चुनाव कैसे संपन्न होता है। उम्मीदवारों के बारे में विवरण और आपके क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट प्रयास आपकी काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में उपलब्ध है। और चुनाव प्रक्रिया के बारे में अधिक विवरण—इसके सहित कि अपनी मतदाता पंजीकरण स्थिति की जांच कैसे करें, मत कहां दें, या क्या आपका डाक द्वारा वोट का मतपत्र प्राप्त हो गया— जानने के लिए www.sos.ca.gov/elections पर जाएं या मेरे टोलफ्री वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फ़ोन करें।

मतदान करना आसान है और हर पंजीकृत मतदाता के पास डाक द्वारा वोट देने या स्थानीय चुनाव स्थल पर जाकर वोट देने का विकल्प मौजूद है। आपके काउंटी चुनाव कार्यालय में डाक द्वारा वोट हेतु मतपत्र का अनुरोध करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इलेक्शन डे पर, चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा।

चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी करने के कई तरीके हैं।

- सभी पात्र मतदाताओं की वोट देने में सहायता करते हुए और चुनाव अधिकारियों द्वारा गिनती किए जाने तक मतपत्रों की रक्षा करते हुए, इलेक्शन डे पर चुनाव कर्मी बनें।
- मतदाता पंजीकरण समयसीमा और मतदान अधिकारों के बारे में ईमेल, फोन कॉल, ब्रोशर और पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें।
- विचार-विमर्श समूह आयोजित करके उम्मीदवारों व मुद्दों के बारे में अन्य मतदाताओं को जागरूक करने में मदद दें या दोस्तों, परिवार और सामुदायिक नेताओं के साथ बहस में भाग लें।

इस मार्गदर्शिका में एटॉर्नी जनरल Kamala D. Harris द्वारा तैयार राज्य मतपत्र प्रयासों के शीर्षक और सारांश; लेजिस्लेटिव एनालिस्ट Mac Taylor द्वारा तैयार मतपत्र प्रयासों का निष्पक्ष विश्लेषण और मतदाताओं के लिए संभावित लागत; समर्थकों व विरोधियों की ओर से मतपत्र प्रयासों के पक्ष में एवं विरोध में तर्क; लेजिस्लेटिव काउंसिल Diane F. Boyer-Vine द्वारा तैयार व प्रूफरीड किया गया प्रस्तावित कानूनों का पाठ; और अन्य उपयोगी सूचना शामिल हैं। इस मार्गदर्शिका का प्रकाशन राज्य के कार्यकारी प्रकाशक Kevin P. Hannah की निगरानी में किया गया।

लोकतंत्र में कई विकल्पों में से चुनने और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार एक शानदार अवसर है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ चुनाव केवल कुछ वोट के छोटे से फासले तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको प्रत्येक उम्मीदवार और मतपत्र प्रयासों के बारे में सावधानीपूर्वक पढ़ने—और अपने मतदान अधिकारों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।

अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने और अपनी राय को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए आपका धन्यवाद!